

सं. 24: खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(₹ करोड़)

मद	2022-23	2023	2024					
		फर. 24	जन. 19	जन. 26	फर. 2	फर. 9	फर. 16	फर. 23
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	6191	11005	6895	6344	9131	8088	9120	8870
1.2 प्राथमिक व्यापारी	20071	22121	19442	25383	22804	21408	22026	20801
1.3 राज्य सरकारें	8038	27121	26142	26142	24142	24345	19784	16384
1.4 अन्य	80638	87774	80663	76273	77464	80904	80255	84728
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	53154	63099	80813	73978	73296	71819	72595	74065
2.2 प्राथमिक व्यापारी	97274	63459	63858	69518	72085	73815	70059	73474
2.3 राज्य सरकारें	2592	7568	8462	6987	5037	5037	5037	5037
2.4 अन्य	110072	88942	80333	83508	83623	85369	90350	92465
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	101834	92664	101580	101169	98282	94786	93642	89312
3.2 प्राथमिक व्यापारी	146080	158712	171099	170822	166658	163627	167542	169184
3.3 राज्य सरकारें	48284	46233	41692	44229	44282	44566	44433	44559
3.4 अन्य	149086	151624	173322	173009	179060	184588	180817	182504
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	212758	239122	170928	192600	150113	143810	193629	224502
4.4 अन्य	926	1377	1625	883	181	157	367	638
कुल खज़ाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती	823313	820322	854300	857361	855865	858352	855658	861383
खज़ाना बिल को छोड़कर)#								

14 दिवसीय मध्यवर्ती खज़ाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खज़ाना बिलों जैसे नहीं है। इन बिलों का स्वरूप मध्यवर्ती है। क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए इन्हें परिसमाप्त किया जाता है।

टिप्पणी: प्राथमिक व्यापारियों (पीडी) में पीडी कारोबार करनेवाले बैंक शामिल हैं।